



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23082023-248257
CG-DL-E-23082023-248257

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3618]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 23, 2023/भाद्र 1, 1945

No. 3618]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 23, 2023/BHADRA 1, 1945

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2023

का.आ. 3778(अ).—केन्द्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 169 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 18 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"18क. निर्वाचन झूटी में तैनात मतदाताओं का अपने सुविधा केन्द्र पर मतदान--इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, निर्वाचन झूटी में तैनात कोई मतदाता, अपना डाक मतपत्र प्राप्त करेगा, इस भाग के अनुसार उस पर अपना मत रिकार्ड करेगा और रिटर्निंग आफिसर द्वारा लिखित में यथाविनिर्दिष्ट सुविधा केन्द्र पर उसे वापस करेगा।"

3. उक्त नियमों के नियम 24 के उपनियम (2) के खंड (ग) में, “किसी राजपत्रित आफिसर” शब्दों के स्थान पर, “किसी समूह क या समूह ख अधिकारी” शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 27क में,—

(क) खंड (ग) में, “दिव्यांग व्यक्ति के रूप में दर्शित है” शब्दों के स्थान पर, “दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (द) में संदर्भित दिव्यांगजन के रूप में यथा परिभाषित और दर्शित है” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ड) में, “65 वर्ष” अंकों और शब्द के स्थान पर, “80 वर्ष” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

5. उक्त नियमों के प्ररूप 13घ के पैरा (5) में,—

(क) “किसी राजपत्रित आफिसर” शब्दों के स्थान पर, “किसी समूह क या समूह ख अधिकारी” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) अंत में, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कोई मतदाता, जो डाक मतपत्र का विकल्प चुनता है, वह अपना डाक मतपत्र प्राप्त करेगा, उस पर अपना मत रिकार्ड करेगा और रिटर्निंग आफिसर द्वारा लिखित में यथाविनिर्दिष्ट सुविधा केन्द्र पर उसे वापस करेगा।”।

[फा. सं. एच-11019/12/2022-वि.2]

दिवाकर सिंह, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

टिप्पण-- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 859(अ), तारीख 15 अप्रैल, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 5038(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2023

S.O. 3778(E).— In exercise of the powers conferred by section 169 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Central Government, after consulting the Election Commission of India, hereby makes the following rules further to amend the Conduct of Elections Rules, 1961, namely:—

1.(1) These rules may be called the Conduct of Elections (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Conduct of Elections Rules, 1961 (hereinafter referred to as the said Rules), after rule 18, the following rule shall be inserted, namely:—

“18A. Voters on election duty to cast his vote at facilitation centre.— Notwithstanding anything in this Part, a voter on election duty shall receive his postal ballot, record his vote thereon in accordance with this Part and return the same at the facilitation centre as specified, in writing, by the returning officer.”.

3. In rule 24 of the said Rules, in sub-rule (2), in clause (c), for the words “any gazetted officer”, the words “any Group A or Group B officer” shall be substituted.

4. In rule 27A of the said Rules,—

- (a) in clause (c), for the words “a person flagged”, the words “a person with benchmark disability as defined in clause (r) of section 2 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and flagged” shall be substituted;
- (b) in clause (e), for the words and figures “above 65 years”, the words and figures “above 80 years” shall be substituted.

5. In Form 13D to the said Rules, in paragraph (5),—

- (a) for the words “any Gazetted Officer”, the words “any Group A or Group B officer” shall be substituted;
- (b) the following shall be inserted at the end, namely:—

“A voter on election duty who opts for postal ballot shall receive his postal ballot, record his vote thereon and return the same at the facilitation centre as specified, in writing, by the returning officer.”.

[F. No. H-11019/12/2022-Leg.II]

DIWAKAR SINGH, Jt. Secy. and Legislative Counsel

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number S.O.859(E), dated the 15th April, 1961 and were last amended *vide* notification number S.O.5038(E), dated the 27th October, 2022.